

प्रेषक,

रामबिलास सिंह,  
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट,  
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 5, सीतापुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सम्पत्ति क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर लगाये गये आब्जेक्शन के सम्बन्ध में यह कहना है कि—

1. दिनांक 28.01.2021 को एल0आई0सी0 पालिसी संख्या 292668211 परिपक्व होने पर 2,59,050 रूपया मेरे खाते में जमा हुआ।
2. दिनांक 26.02.2021 को विक्रेता विपेन्द्र बहादुर सिंह को तीन लाख रूपया मेरे द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया। उस समय मेरे खाते में 3,69,119 रूपये थे जो एल0आई0सी0 की परिपक्वता राशि व वेतन की संयुक्त धनराशि थी।
3. दिनांक 5.04.2021 को स्टेट बैंक आफ इण्डिया सीतापुर से दस लाख रूपये का व्यक्तिगत ऋण जमीन को क्रय करने के लिये किया गया था।
4. दिनांक 21.05.2021 को 26,00,000रूपया होम लोन जमीन क्रय करने के मद में लिया गया।
5. दिनांक 21.05.2021 को 32,00,000 रूपया विपेन्द्र बहादुर सिंह के खाते में जमा किया गया जो होम लोन व व्यक्तिगत लोन की संयुक्त धनराशि से मेरे द्वारा भुगतान किया गया है।

इस प्रकार विक्रेता विपेन्द्र बहादुर सिंह को जो विक्रय की धनराशि पैतीस लाख रूपया प्रदान की गयी है, वह एडवान्स, एल0आई0सी0 व वेतन की संयुक्त धनराशि से व शेष धनराशि बत्तीस लाख रूपया व्यक्तिगत ऋण, दस लाख रूपया व गृह ऋण छब्बीस लाख रूपये की संयुक्त धनराशि से प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण सुसंगत दस्तावेज मेरे द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में अपने बचत खाता संख्या 31887337218 के पास बुक की 6 माह की प्रविष्टियों की स्वयं सत्यापित छाया प्रति, भुगतान की गयी धनराशि व मेरे खातों में प्राप्त धनराशि को अण्डरलाइन करते हुये सादर प्रेषित की जा रही है। कृपया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्यों को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

दिनांक 10.08.2021

भवदीय

(रामबिलास सिंह)  
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)  
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 5,  
सीतापुर।  
J.O.Code UP6067